



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112023-249934  
CG-DL-E-07112023-249934

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 640]  
No. 640]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 2023/कार्तिक 16, 1945  
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 2023/KARTIKA 16, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 820(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2009 को जहां उनका संबंध अवर श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के अधीन वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, अवर श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 2023 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इसमें संलग्न वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं इत्यादि – भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में निर्दिष्ट हैं।
- निरहता – वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**5. शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**6. व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

#### अनुसूची

पद का नाम (1)	पदों की संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4)	चयन अथवा अचयन पद (5)
अवर श्रेणी लिपिक	8*(2023) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200/-रूपये)	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है) <b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जायेगी	(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से बारहवीं या समतुल्य (11) टाइपराइटर पर 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी टंकण की गति या हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए । अथवा कंप्यूटर पर टंकण अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति हो (प्रत्येक शब्द के लिए	हां, स्तंभ संख्या (10) में दर्शायी गई सीमा तक	दो वर्ष	(i) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । (ii) 10 प्रतिशत रिक्तियां समूह 'ग' कर्मचारियों में से वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-1 (18000-56900) में बारहवीं पास या समतुल्य योग्यता और विभागीय पास परीक्षा के आधार पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो, द्वारा भरे जायेंगे । पात्रता परीक्षा हेतु

(जहाँ भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जायेगी, वहाँ आयु-सीमा अवधारित करने हेतु परिपत्र तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी)	5 की डिप्रेषन के औसत पर 10500 के डी पी एच के समरूप अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट			अधिकतम आयु सीमा पैंतालीस वर्ष हो (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए पचास वर्ष की आयु हो) <b>टिप्पण :</b> यदि इस खंड के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की तुलना में ऐसे कर्मचारी ज्यादा हैं (iii) आगामी वर्षों में परीक्षा में अर्हता प्राप्त ऐसे कर्मचारियों द्वारा रिक्तियों को भरने पर विचार किया जायेगा ताकि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने पहले परीक्षा पास की हो, बाद में परीक्षा पास करने वाले कर्मचारी से पहले विचार किया जा सकें। (iv) समूह 'ग' कर्मचारियों से जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित सेवा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900) पदों पर की हो तथा 5 प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरी जायेगी।
--	--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/ पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे – (i) संयुक्त निदेशक वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो.....अध्यक्ष; (ii) उपनिदेशक, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो.....सदस्य; (iii) सहायक निदेशक अथवा क्षेत्रीय उपनिदेशक, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो.....सदस्य	लागू नहीं होता।

[ई. सं.174823, फा.सं.8-1/2022-एफई]

बी. आर. मीना, अवर सचिव

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## (Wildlife Crime Control Bureau)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2023

**G.S.R. 820(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Wildlife Crime Control Bureau, (Group 'C') Recruitment rules, 2009 in so far as it relates to the post of Lower Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Lower Division Clerk in the Wildlife Crime Control Bureau under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Wildlife Crime Control Bureau, Lower Division Clerk Recruitment Rules, 2023.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification and Level in the Pay Matrix.**— The number of the post, its classification and Pay Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications,** etc.—Method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.**—No person,—  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
(b) who, having a spouse living, has entered into a contracted a marriage with any person,  
shall be eligible for appointment to the said posts: Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law application to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reason to be recorded in writing and relax any of the provisions of these with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.** —Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation in age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Casts, the Schedule Tribes, the Other Backward classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time in this regard.

### SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classifications	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lower Division Clerk.	8* (2023)* Subject to variation depending upon the workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted/ Ministerial	Pay level-2 (Rs. 19900 – 63200) in the Pay Matrix	Non-Selection	Between 18 to 27 Years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection

					Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, circular date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications).
--	--	--	--	--	---

<b>Educational and Other Qualifications required for Direct Recruits</b>	<b>Whether Age and Educational Qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of promotes</b>	<b>Period of Probation, if any</b>	<b>Method of Recruitment Whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation/Absorption and Percentage of the vacancies to be filled by various methods</b>	<b>In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made</b>
<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10)</b>	<b>(11)</b>
<p>(1) 12th Class or equivalent qualification from a recognized Board or University.</p> <p>(ii) A typing speed of 30 word per minute in English or 25 word per minute in Hindi on typewriter.</p> <p>or</p> <p>A typing speed of 35 word per minute in English or 30 word per minute in Hindi on computer (35 word per minute and 30 word per minute correspond to 10500 Key Depressions Per Hour/9000 Key Depressions Per Hour on an average of 5 key depressions for each word).</p>	Yes, to the extent indicated in Column Number (10)	Two Years.	<p>(i) 85% by Direct recruitment through Staff Selection Commission.</p> <p>(ii) 10% of the vacancies shall be filled from amongst the Group C Staff in Pay level-1, (18000-56900) in the pay matrix who possess 12<sup>th</sup> Class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of Departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is forty five years. (fifty years of the age for the Scheduled Caste/Scheduled Tribes). Note: If more of such employees than the number of vacancies available under Clause.</p> <p>(iii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the</p>	Not Applicable

			<p>employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a latter examination.</p> <p>(iv) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have three years regular service in posts with Pay level-1 in the pay matrix, (Rs. 18000-56900).</p>	
--	--	--	---	--

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering Confirmation and promotion consisting of:</b></p> <p>(1) Joint Director, Wildlife Crime Control Bureau - Chairman;</p> <p>(2) Deputy Director, Wildlife Crime Control Bureau – Member;</p> <p>(3) Assistant Director or Regional Deputy Director, Wildlife Crime Control Bureau – Member.</p>	<p>Not applicable</p>

[E. No.174823, F. No. 8-1/2022-FE]

B. R. MEENA, Under Secy.